



DCM SHRIRAM

BSE Limited Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, <u>Mumbai – 400 001</u>	National Stock Exchange of India Ltd., “Exchange Plaza”, 5 th Floor, Plot No. C-1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai: 400 051</u>
SCRIP CODE: 523367	SCRIP CODE: DCMSHRIRAM

Kind Attn.: **Department of Corporate Communications/Head - Listing Department**

Sub.: **Newspaper Advertisements for the Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2024**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of the newspaper advertisements published in the Business Standard (English & Hindi) on May 7, 2024 with respect to the Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2024.

Please arrange to take the above information on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For DCM Shriram Ltd

Sameet Gambhir
Company Secretary & Compliance Officer

Dated: May 7, 2024

Encl.: As above

DCM SHRIRAM LTD.

Registered and Corporate Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110037, India
Tel: +91 11 42100200 e-mail: response@dcmshriram.com website: www.dcmshriram.com
CIN No. L74899DL1989PLC034923

Recovery Department, Circle Sastra, Bikaner D-820500 A-17, Kanta Khiluria Colony, Bikaner (Raj.)-334001
Email: cs8205@pub.co.in

APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 26/02/2024 calling upon the Borrowers / Guarantor / Mortgagee MRS. Sharda Devi Harijan W/O SH. Ganpat Ram to repay the amount mentioned in the notice being Rs.8.27.242.19 (Rupees Eight Lakh Twenty Seven Thousand Two Hundred Forty Two and Paise One Nine Only) as on 26/02/2024 with further interest & charges until full payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagee having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagee and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 01th Day of May of the year 2024.

The borrower/ mortgagee in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank for an amount of Rs. 8,27,242.19 (Rupees Eight Lakh Twenty Seven Thousand Two Hundred Forty Two and Paise One Nine Only) as on 18/01/2024 and further interest expenses thereon until full payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY:
RESIDENTIAL Plot No. 629, Ward No. 2, Harijan Basti, Nokha, Distt. - Bikaner 334803 (Rajasthan) Measuring 2400 sq. Feet IN THE NAME OF MRS. Sharda Devi Harijan W/O SH. Ganpat Ram, Bounded by:- On the East by :- Rasta, On the West by :- Plot No. 549, On the North by :- Plot No.630, On the South by :- Plot No.628.
Date: 01/05/2024 Place: Bikaner
Authorized Officer, Punjab National Bank

NOTICE

Notice is hereby given that the share certificates for 1500 equity shares of Rs.2/- each (Cert. no. 15423, Distinctive no. 37200211 to 37200960 for 750 shares, and Cert. no. 3390, Distinctive no. 2586586 to 2587335 for 750 shares) under Folio No. 00S01883 standing in the name of SHYAM LAL NOPANY of SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED have been lost. Undersigned have applied for duplicate share certificate(s). Any person(s) who have claim should lodge claim with the Company at its Registered Office within 15 days. Registered Office: 7th Floor, Eleven West Panchshil, Survey No. 25, Near PAN Card Club Road, Baner, Pune - 411045
Date : 06/05/2024 Legal Heir: Gayatri Devi Nopani
Place : Bilaspur

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India Jain Bhawan Pilibanga(50673) Pilibanga, Distt.-Hanumangarh-335803 Email- sbi.50673@sbi.co.in
(Rule - 8(1) Possession Notice (For Immovable Property))

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 26/02/2024 calling upon the Borrower Mrs. Rinku w/o Mr. Shubhkirin Bisnoi to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,92,63,281/- (Rupees One Crore Ninety-Two Lakh Sixty-Three Thousand Two Hundred Eighty-One Only) as on 26/02/2024 (inclusive interest up to 25/02/2024) plus interest & other charges etc, within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on this 01 day of May of the year 2024. The Borrower/Mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount of Rs. 1,92,63,281/- (Rupees One Crore Ninety-Two Lakh Sixty Three Thousand Two Hundred Eighty-One Only) as on 26/02/2024 (inclusive interest up to 25/02/2024) plus further interest costs, etc, thereon. The Borrower/Mortgagor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the (warehouse) building and land (agriculture) land approved by Tehsildar, Pilibanga for establishment of Food Processing Unit) consisting of Land in Killa No. 11/2/0.013, 12/2/0.018, 13/0.232, 14/0.232, 15/0.232, 20/3/0.0477 & 20/7/0.0103 Sq. No. 51, Stone No. 43/283, Chak 3-LGW, Gram Panchayat-Longwala, Tehsil-Pilibanga, Distt.-Hanumangarh (Raj.) (total measuring Size 0.9688 hect. i.e. 9688 sq.mtr.) as per bank record in the Name Mrs. Rinku w/o Mr. Shubhkirin. Bounded by :- On the East by :- Land of Gurcharan Singh, On the West by :- Road, Petrol Pump & Land of Amarjeet Singh, On the North by :- Petrol Pump, Water Works, Land of Amarjeet Singh & Shubhkirin On the South by :- Land Of Shubhkirin, Ravi Kiran & Geeta Devi
Place : 3 LGW Longwala Date: 01/05/2024 Authorised Officer, State Bank of India

NIDO HOME FINANCE LIMITED (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited) Registered Office Situated at Tower 3, 5th Floor, Wing 'B', Kohinoor City Mall, Kohinoor City, Kiroli Road, Kuria (West), Mumbai - 400 070. Regional Office at: Second floor, 3B Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110005.

POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8(1) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Whereas the Undersigned being the Authorized Officer of 'Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)' under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (order 3 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued Demand Notices to the Borrower/s as detailed hereunder, calling upon the respective Borrowers to repay the amount mentioned in the said notices with all costs, charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the receipt of the same. The said Borrowers/Co borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Co borrowers and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described hereunder in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act r/w Rule 8 of the said Rules in the dates mentioned along-with the Borrowers in particular and public in general are hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of 'Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)'. For the amount specified therein with future interest, costs and charges from the respective dates. Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notice sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of Possession is given as under:

1. Name And Address Of The Borrower, Co Borrower, Guarantor Loan Account No. And Loan Amount:-
DEEPAK DUDEJA (BORROWER) H.No.508/2/9, Shivpuri, Gurgaon- 122001. KRISHAN KUMAR (CO-BORROWER) H.No. 508/2/9, Shivpuri, Gurgaon- 122001. LATA KUMARI (CO-BORROWER) H.No. 508/2/9, Shivpuri, Gurgaon- 122001
Property Address: H.No.- 508/2/9, Waka Siwana Mauja Shivpuri, Kharsa No. 4798/3449/761min, Gurgaon- 122001
LAN.NO.: LNDPHL000084221 LOAN AGREEMENT DATE: 08/10/2020
Loan Amount: Rs. 29,50,000/- (Rupees Twenty-Nine Lakhs Fifty Thousand Rupees Only)
NPA DATE: 04-02-2024 DEMAND NOTICE DATE:- 19/02/2024
Amount Due In Rs. 30,62,353.19/- (Rupees Thirty Lakh Sixty-two thousand three hundred fifty-three rupee nineteen paise Only) With further interest from the date of Demand Notice 19/02/2024 Possession Date: 03-05-2024

SCHEDULE OF THE PROPERTY:- H.No.- 508/2/9, Waka Siwana Mauja Shivpuri, Kharsa No. 4798/3449/761min, Gurgaon- 122001 The Said Flat Is Bounded As: North - House Of Suraj Bhan South - House Of Jan Devi East - House Of Subhash Anand West - Gali 15 Feet (Road).

Place: Gurgaon Sd/- Authorized Officer
Date: 07.05.2024 FOR Nido Home Finance Limited (formerly known as Edelweiss Housing Finance Limited)

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 25.01.2024 calling upon the Borrower(s) **SANGEETA CHHABRA ALIAS SANGEETA CHITKARA AND SANJEEV CHHABRA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 15,56,983.06 (Rupees Fifteen Lakhs Fifty Six Thousand Nine Hundred Eighty Three and Paise Six Only)** against Loan Account No. **HHLDCP00221084** as on 12.01.2024 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **03.05.2024**.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs. 15,56,983.06 (Rupees Fifteen Lakhs Fifty Six Thousand Nine Hundred Eighty Three and Paise Six Only)** as on 12.01.2024 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
FLAT NO. 1211, HAVING SUPER AREA OF 500 SQ FT. ON 12TH FLOOR, IN BLOCK/ TOWER W2/, W2, KNOWN AS " GOLF VILLAGE", SITUATED AT TS-5 SEC 22-D GR NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, YAMUNA EXPRESSWAY, NOIDA-201304, UTTAR PRADESH.
Sd/-
Date : 03.05.2024 Authorised Officer
Place: NOIDA INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.
Haldwani Branch : Village Bhotia Parao, H1E, 3rd Floor, Durga City Center, Nainital Road Haldwani, Under Municipal Area Haldwani - 263139 (Uttarakhand)

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of **Aadhar Housing Finance Limited (AHFL)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Co Borrower(s)(Name of the Branch)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1	(Loan Code No. 07800000015 / Haldwani Branch) Kuwar Ram Arya (Borrower), Babita Arya (Co-Borrower), Vipin Arya (Guarantor)	All that part & parcel of property bearing, Kharsa No 154 Min Vill Dhawalakheda Pargana Bhawar Tehsil Haldwani, Nainital, Uttarakhand - 263139 Boundaries: East- 12 Feet wide road, West - House of Bhakuni Ji, North- Others Plot, South- 12 Feet wide road	18-07-2022 & ₹ 19,29,052/-	04-05-2024

Place : **Uttarakhand**
Date : **07-05-2024**
Authorised Officer
Aadhar Housing Finance Limited

ACRE ASSETS CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD.
Corporate Office : Unit No. 502, C Wing, ONE BKC, Plot No. C - 66, G - Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051. Tel : 022 68643101
Registered Office : 14th Floor, EROS Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019
E-mail : acre.arc@acreindia.in | Website : www.acreindia.in | CIN : U65993DL2002PLC115769

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property/properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	LOAN ACCOUNT NO. HHLVAS00231273 1. ANJALI BHADOLA 2. VARUN KUMAR BHADOLA (GUARANTOR)	UNIT NO. 0502, 5TH FLOOR, BLOCK W1, SUPERTECH GOLF VILLAGE- GOLF COUNTRY, TS - 05, SECTOR 22-D, YEIDA, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR- 201308, UTTAR PRADESH	31.12.2021	Rs. 13,64,342.15/- (Rupees Thirteen Lakh Sixty Four Thousand Three Hundred Forty Two and Paise Fifteen Only) as on 23.04.2024

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.
Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.
In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.
Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."
In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.
For Assets Care and Reconstruction Enterprise Ltd. Acting in its capacity as Trustee of ACRE 102 Trust Authorized Officer
Place : NOIDA

PRUDENT CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED.
CIN: L91120GJ2003PLC042458

Registered Office: Prudent House, 3 Devang Park Society, Panjarapole Cross Road, Ambawadi, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India. Phone: +91-79-40209600. E-mail: cs@prudentcorporate.com | www.prudentcorporate.com

YoY Revenue*	YoY Operating Profit*	YoY PAT*
31.7% ↑	11.4% ↑	18.9% ↑
YoY AUM Growth^	YoY SIP Gross Flows (Apr-Mar 24)	Run rate of Monthly SIP Book
32.3% ↑	33.0% ↑	726 Cr

(*Growth Numbers is for FY24.) • (^Growth in Yearly Average AUM as of FY24)

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2024
(Rs. In Crores except for EPS)

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended 31/03/2024	Quarter ended 31/03/2023	Year ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2023
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from operations	239.7	177.0	805.1	611.3
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	59.8	55.3	185.8	156.8
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.8	55.3	185.8	156.8
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.6	41.2	138.7	116.7
Total Comprehensive income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	43.8	41.2	137.6	116.5
Equity Share Capital	-	-	20.7	20.7
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	460.7	329.3
Earnings Per Share (FV of Rs. 5/- each)				
Basic :	10.76	9.96	33.51	28.18
Diluted :	10.76	9.96	33.51	28.18

* EPS is not annualized for quarter ended periods
Notes: The above is an extract of the detailed quarterly financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly consolidated financial results and quarterly standalone financial results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2024 along with the notes, are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's website at www.prudentcorporate.com.

EXTRACT OF KEY NUMBERS OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS
(Rs. In Crores except for EPS)

Particulars	Standalone			
	Quarter ended 31/03/2024	Quarter ended 31/03/2023	Year ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2023
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	191.1	137.2	665.5	518.2
Profit Before Tax	42.8	26.5	140.3	99.6
Profit After Tax	31.9	19.8	104.9	74.2

An Independent Retail Wealth Management Services Group

₹83,384 Cr Mutual Fund AUM | 16.87 Lacs Unique Retail Investors | 29,605 Mutual Fund Distributors | 25.53 Lacs Live SIPs | 49.03 Lacs Live Folios | 119 Pan India Branches
All data are as of Mar, 2024

For and behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sanjay Shah - Managing Director
DIN: 00239810

Place: Ahmedabad
Date: 6 May, 2024

DCM SHRIRAM
Growing with trust

Regd. Office : 2nd Floor, (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110 037
CIN: L74899DL1989PLC034923
E-mail: response@dcmshriram.com Website: www.dcmshriram.com
Tel: 91 11 42100200 Fax: 91 11 43561694

Extract of Audited Consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024
Rs. in Crores

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Total Income	2,555.23	2,874.44	11,529.83	12,199.19
Net Profit before tax	176.52	289.23	698.74	1,413.13
Net Profit after tax	117.80	186.67	447.10	910.84
Total Comprehensive Income [Comprising net profit and Other Comprehensive Income (after tax)]	112.23	191.43	439.39	923.59
Equity Share capital	31.35	31.35	31.35	31.35
Other equity (excluding revaluation reserves)	6,490.75	6,162.40	6,490.75	6,162.40
Securities Premium Account	2.31	2.31	2.31	2.31
Net worth	6,476.33	6,147.31	6,476.33	6,147.31
Outstanding Debt (Gross)	2,082.63	1,632.98	2,082.63	1,632.98
Net debt equity ratio	0.22	0.11	0.22	0.11
Earning per share - Basic/Diluted (Rs. per equity share)	7.55	11.97	28.67	58.41
Capital redemption reserve	10.40	10.40	10.40	10.40
Debt service coverage ratio :				
-For the period	3.50	7.99	4.41	11.73
-Trailing twelve months	4.41	11.73	4.41	11.73
Interest service coverage ratio :				
-For the period	8.39	73.77	13.84	61.94
-Trailing twelve months	13.84	61.94	13.84	61.94

Notes:
1. The Board of Directors has recommended a final dividend of Rs. 2.60/- per equity share of Rs. 2/- each, aggregating to Rs. 40.54 crores. During the year, the Company paid an interim dividend of Rs. 4.00/- per equity share aggregating to Rs. 62.38 crores thereby making the total dividend of Rs. 6.60/- per share (previous year Rs. 14.00 per share) aggregating to Rs. 102.92 crores.
2. The extract of standalone results is as under:

PARTICULARS (Standalone)	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Total income	2,507.43	2,801.59	11,269.76	11,986.89
Profit before tax	175.45	293.69	671.10	1,454.49
Profit after tax	116.30	191.34	426.25	961.49
Total Comprehensive Income [Comprising net profit and Other Comprehensive Income (after tax)]	111.10	195.14	419.09	974.08

3. The above is an extract of the detailed financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listings and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated financial results in prescribed format are available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com) / (www.bseindia.com) and Company's website www.dcmshriram.com.
4. The above results were reviewed by Audit Committee and then approved by the Board of Directors in their meetings held on May 06, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors
AJAY S. SHRIRAM
Chairman & Senior Managing Director
DIN: 00027137

Place: New Delhi
Date: May 06, 2024

DCM SHRIRAM LTD.
Shriram Fertilisers & Chemicals • Shriram Alkali & Chemicals • DCM Shriram Sugar
Shriram Farm Solutions • Bioseed • Fenesta Building Systems • Shriram Cement • Shriram Polytech



केपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज

पुद्दुचेरी में सॉफ्ट जेल कैप्सूल अनुभाग के लिए कोलंबिया की इनविमा की मंजूरी मिली

₹ 1,298.8 पिछला बंद भाव
₹ 1,311.0 आज का बंद भाव
0.9% ▲

एचसीएल टेक्नोलॉजिज

जेनएआई की अगुआई वाले डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने का एडवेंचरस संग करार

₹ 1,347.8 पिछला बंद भाव
₹ 1,359.8 आज का बंद भाव
0.9% ▲

जीएचसीएल

चौथी तिमाही का शुद्ध लाभ 43 प्रतिशत तुलना में

₹ 511.1 पिछला बंद भाव
₹ 498.7 आज का बंद भाव
-2.4% ▼

अनूप इंजीनियरिंग

वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ 121 प्रतिशत बढ़ा

₹ 1,838.6 पिछला बंद भाव
₹ 2,066.8 आज का बंद भाव
12.4% ▲

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

वाल्स्टार एसए की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौता

₹ 1,508.4 पिछला बंद भाव
₹ 1,529.7 आज का बंद भाव
1.4% ▲

नए नियमों से एफएमसीजी फर्मों पर असर

प्लास्टिक रिसाइकलिंग और प्लास्टिक पैकेजिंग के पुनर्उपयोग के नए नियमों से नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया और कोलगेट जैसी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों पर असर पड़ सकता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक नोट में ऐसा कहा है। नए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत, भारत वित्त वर्ष 2025 से चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक पैकेजिंग (एमएसएमई को छोड़कर) के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांडों के लिए रिसाइकलिंग और पुनर्उपयोग के लिए अनिवार्य मानदंड लागू करेगा। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादक है। एक ओर जहाँ ये नए नियमों से भारत वैश्विक लोग में शामिल हो जाएगा वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता वस्तु कंपनियों की पैकेजिंग लागत भी प्रभावित होगी। ब्रोकरेज का कहना है कि उपभोक्ता वस्तु कंपनियों औसतन अपनी कमाई का 5 से 8 फीसदी पैकेजिंग पर खर्च करती हैं और वे अभी भी प्लास्टिक पर ही काफी निर्भर हैं।

इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत बढ़ा

वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत बढ़कर 2,247 करोड़ रुपये रहा है। बैंक का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 1,447 करोड़ रुपये था। जनवरी माच तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 16,887 करोड़ रुपये हो गई, जो 2022-23 की चौथी तिमाही में 14,238 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) नौ प्रतिशत बढ़कर 6,015 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में 5,508 करोड़ रुपये थी। बैंक का पूरे वित्त वर्ष 2023-24 का शुद्ध लाभ पिछले 53 प्रतिशत बढ़कर 8,063 करोड़ रुपये हो गया।

निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात) पंजीकृत कार्यालय टॉवर 3 पर स्थित, 5वां तल, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉड, कोहिनूर सिटी, किराल रोड, कुर्ना (केरल), मुम्बई-400 070

प्रादेशिक कार्यालय: दूसरा तल, 3वीं सर्वोद्वार पार्क, पूना रोड, नई दिल्ली-110005



सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी "निडो होम फार्नेस लिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)" के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वितीय परिसरों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्धन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का आदेश 3) और प्रादेशिक अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत विस्तृत रूप से उधारकर्ता/ओं को मांग सूचना जारी कर, संबंधित उधारकर्ताओं को 60 दिनों के भीतर मुगलान की वास्तविक दिनांक तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त सूचनाओं में उल्लेखित राशि उक्त की प्राप्ति से चुकाने का आदेश दिया गया। उक्त उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद द्वारा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उक्त प्रदान शर्तियों के प्रयोग में उल्लेखित दिनांक में शर्तित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्तियों से कोई व्यवहार न करे और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार नभिये के ब्याज, लागत और संबंधित दिनांकों से शुल्क के साथ उक्त निर्दिष्ट राशि के लिए "निडो होम फार्नेस लिमिटेड (पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)" के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और गारंटर, प्रतिभूतिकरण, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गई मांग सूचना और उक्त सहायक तालिका की गई राशि और कब्जे की दिनांक-नीचे दि गई है:

1. उधारकर्ता/पता/सह-उधारकर्ता, गारंटर का नाम और ऋण खाता संख्या और ऋण राशि:
दीपक दूडेजा (उधारकर्ता) म.सं. 508/2/9, शिवपुरी, मुगुण 122001 कृष्ण कुमार (सह-उधारकर्ता) म.सं. 508/2/9, शिवपुरी, मुगुण 122001 लता कुमारी (सह-उधारकर्ता) म.सं. 508/2/9, शिवपुरी, मुगुण 122001

संपत्ति पता: म.सं. 508/2/9, बाके सिटाना मंजो शिवपुरी, खरारा सं. 4798/3449/761 मीन, मुगुण-122001

ऋण खाता सं.: LNDPOHL0000084221 ऋण अनुबंध दिनांक: 08/10/2020

ऋण राशि: ₹. 29,50,000/- (स्वयं उत्तरीय लाख पचास हजार)

पंजीकृत दिनांक: 04/02/2024 मांग सूचना दिनांक: 19/02/2024

बकाया राशि: ₹. 30,61,353.19/- (स्वयं तीस लाख इकसठ हजार तीन सौ त्रिंशत् और उन्नीस पैसे मात्र) मांग सूचना दिनांक: 19/02/2024 से भीतिय के ब्याज के साथ

कब्जा दिनांक: 03.05.2024

संपत्ति की अनुसूची: मकान सं. 508/2/9, बाका सिटाना, मंजो शिवपुरी, खरारा सं. 4798/3449/761 मीन, मुगुण-12001

संपत्ति का सीमांकन प्रकार: उत्तर: सूरज भात का मकान, दक्षिण: जान देवी का मकान, पूर्व: सुभाष आनंद का मकान, पश्चिम: 18 फुट गली (सड़क)

स्थान: मुगुण

दिनांक: 07.05.2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

प्रति निडो होम फार्नेस लिमिटेड

(पूर्व में एडलवाइस हाउसिंग फार्नेस लिमिटेड से ज्ञात)

सवाल जवाब

नई सरकार के बाद फेम-3 योजना जल्द आने की उम्मीद

ऐसे समय में जब उद्योग को वाणिज्यिक वाहन बिक्री पर चुनावों का असर पड़ने की आशंका नजर आ रही है, अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी शेनु अग्रवाल का मानना है कि यह क्षेत्र इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

शाइन जैकब के साथ विशेष बातचीत में अग्रवाल ने कंपनी के पूंजीगत खर्च, ईवी क्षेत्र की कंपनी स्विच में रकम जुटाने की योजनाओं और बस बिक्री में वृद्धि के बारे में भी चर्चा की। प्रमुख अंश ...



आशंका जताई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के कारण वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री प्रभावित होगी। असलियत में रुझान क्या है? धरंसार-जनवरी के आसपास यह व्यापक धारणा थी कि अधिक आधार का कुछ असर पड़ेगा, नकारात्मक चक्र और चुनावों के असर की वजह से उद्योग में कुछ कमी आएगी। उद्योग में आम धारणा यह थी कि पहली छमाही में 10 से 15 प्रतिशत के बीच कुछ गिरावट देखी जा सकती है। कुछ रिपोर्टों की राय थी कि कुल मिलाकर इस वर्ष के दौरान उद्योग चार से सात प्रतिशत के दायरे में घट सकता है। अशोक लीलैंड का विचार था कि उद्योग में गिरावट का कोई बड़ा संकेत नहीं है। अप्रैल में हमने अपने खुद के वॉल्यूम में 10 प्रतिशत का इजाफा देखा। इस वृद्धि के साथ-साथ बाजार से हम जो सुन रहे हैं, उससे हमें लगता है कि बाजार पर चुनावों का कोई असर नहीं है।

पुरे वर्ष के लिए बिक्री को लेकर आपका नजरिया क्या है? वित्त वर्ष 25 में चार से सात प्रतिशत गिरावट के उद्योग के एकरमत नजरिये के विपरीत हमारा ज्यादा सकारात्मक नजरिया है। इस बात की संभावना है कि उद्योग सपाट रहे और यह भी हो सकता है कि अगर मई-जून अच्छा रहे तो हमें छोटी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। मैं जमीनी हिसाब से अपनी बात कर रहा हूँ।

अप्रैल में आपकी बस बिक्री 171 प्रतिशत तक बढ़ी। इसकी क्या वजह थी? वित्त वर्ष 23 में भी बस बाजार में खासा इजाफा देखा गया था। बस श्रेणी में यह रुख जारी रहेगा। कोविड के बाद अचानक बढ़ी हुई मांग अब भी बरकरार है। राज्य रोडवेजों की मांग उनके पुराने बेड़े के कारण है और अब तो निजी मांग भी आ रही है। यह हमारे पक्ष में है

क्योंकि हम बस बाजार में अग्रणी हैं। वित्त वर्ष 23 में बसों में हमारी बाजार हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 24 में हम इसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत तक करने में कामयाब रहे हैं।

वित्त वर्ष 25 के लिए आपकी पूंजीगत व्यय की क्या योजनाएं हैं? क्या आप अब भी स्विच जैसी अपनी सहायक कंपनियों में फंडिंग की तलाश कर रहे हैं? अशोक लीलैंड में पूंजीगत व्यय काफी स्थिर है। आम तौर पर हम हर साल करीब 500 करोड़ से 700 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। हम इस वर्ष भी इसी तरह की राशि की उम्मीद कर रहे हैं। इशमें स्विच मोबिलिटी या ओएम ग्लोबल मोबिलिटी प्राइवेट (ओएचएम) में निवेश शामिल नहीं होगा। पिछले साल हमने स्विच में 1,200 करोड़ रुपये और ओएचएम में लगभग 300 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

फेम योजना को आपकी श्रेणी के लिए विस्तार नहीं मिला। क्या इससे इस क्षेत्र पर असर पड़ा है? मुझे नहीं लगता कि नीतिगत मोर्चे पर कोई अस्थिरता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि सरकार फेम-2 की समाप्ति से पहले फेम-3 योजना नहीं ला सकी। अंतरिम योजनाओं में कार या वाणिज्यिक वाहन शामिल नहीं थे। हमें पूरा यकीन है कि सरकार इस बात पर काफी गंभीरता से विचार कर रही है और नई सरकार आने के बाद फेम-3 जुलाई या अगस्त तक आ जाएगा।

क्वाड्रिया कैपिटल ने नेफ्रोप्लस में हिस्सेदारी खरीदी

फर्म क्वाड्रिया कैपिटल ने भारत की सबसे बड़ी डायलेसिस कंपनी नेफ्रोप्लस में कम हिस्सेदारी खरीदने के लिए 850 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है। वीएस

सर्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित करना है कि आवासीय परिसर सं. 176-डी, तीसरी तल, ब्लॉक-बी-10, उदयगिरि-2, सेक्टर-34, नएरा, विरवारु आरटी जी संसदीय सिविल एन डी रुद्रमन सिविल निवासी पी-14-ए, जयपुरा एस्टेट, नई दिल्ली पॉस्टर मेसर्स प्रोडिजियस इन्फ्लिक्शन एंड मेकेनिकल वर्क्स ने उक्त परिसर मुख्यालयों आम के आधार पर निगम प्रकृत बनाया।

1. शीतली पदमा पाण्डेय पत्नी स्व. सी डी पाण्डेय निवासी पी 65, सेक्टर-22, नएरा, 30 से 48 फुट में दिनांक 07.09.1995 को मुख्यालयों आम निष्पादित किया गया जो कि उप-निर्वाह कार्यालय, नएरा में पंजीकृत है, और विद्युत संचयन (एनटीएनू डू सेल) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निर्मादित नहीं किया गया है।

1. अधिकार सं. 1 पर अधिनियम विद्युत संचयन निष्पादित/पंजीकृत नहीं है। अतः इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी दिल्ली पॉस्टर मेसर्स प्रोडिजियस इन्फ्लिक्शन एंड मेकेनिकल वर्क्स को किसी प्रकार की आपत्ति है तो कृपया अपनी सख्त सहमत सहित नएरा प्राधिकरण के आवासीय (मनोर) विभाग में इस प्रकृति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर दायित्व कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायिकरण, पीएन नई दिल्ली के संसद

सीपी (सीएफ) सं. 28/एनपी/2024
सीए (सीएफ) सं. 90/एनपी/2023 से संबद्ध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (आरएनडी) प्राइवेट लिमिटेड एवं उनके संबंधित अंशधारकों तथा ऋणपदाताओं के साथ न्यूसेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना के प्रकरण में न्यूसेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (आरएनडी) प्राइवेट लिमिटेड

साभुक्षिक रूप में याचिकादाता कंपनियों के रूप में संदर्भित

कंपनी योजना याचिका की सुनवाई की सूचना

शीर्षकधारियों संयुक्त कंपनी योजना याचिका जो है यह याचिकादाता कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत 19 मार्च 2024 को प्रस्तुत की गई थी

(कंपनी योजना याचिका) कंपनी योजना याचिका, न्यूसेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 10/एफ सं. 11, तुलसी तल, मंडिक विस्तारान नएरा 1, पॉस्टर नंबर 2, सेक्टर - 6, सेक्टर - 12, हारका, नई दिल्ली - 110078 में है, को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (आरएनडी) प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 807, नई दिल्ली हाउस बाराखा रोड नई दिल्ली - 110001 में है, तथा उसके संबंधित अंशधारकों एवं ऋणपदाताओं के साथ समामेलन की योजना (योजना) को स्वीकृति देने के लिये प्रस्तुत की गई है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत 19 मार्च 2024 को प्रस्तुत की गई थी

कंपनी योजना याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपने या अपने अधिकांश द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे हस्ताक्षरों की एक सूचना अपने पूरे नाम और पते के साथ भेजनी चाहिये।

ऐसी सूचना मानसंगत विचारों और याचिकादाता के अधिकांश को, पीके टिए एफ पते पर, उक्त कंपनी योजना याचिका की सुनवाई के लिये निर्वाचित तिथि अर्थात् 6 जून 2024 से 2 (दो) दिन पहले भेजी जानी चाहिये। जहां कोई भी व्यक्ति कंपनी योजना याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध के आवारों या उनके शाश्वतधर की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिये। कंपनी योजना याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकों द्वारा प्रति हेतु निर्वाचित शुल्क का भुगतान करने पर प्रति प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रेषित की जानी चाहिये।

जे. सागर एसोसिएट्स के माध्यम से याचिकादाताओं के अधिवक्ता

बी-303, पुरीय तल, अंशल प्लाजा, हुडको फ्लोर, अगस्त क्रॉसि मार्ग, नई दिल्ली-110049, भारत

ई-मेल आईडी: theeraaj@jstlaw.com
kumar.kisalay@jstlaw.com
angad.baxi@jstlaw.com
रूपाय सं: 91-9910711255

दिल्ली संस्करण: बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रि) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित

संपादक: कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. DELHIN/2008/27804 पालक संपादक को lettershindi@bsmail.in | टेलीफोन - 033-22101314/022/1600 फैक्स - 033-22101599

सबस्क्रिप्शन और संचालन के लिए संपर्क करें... सूची मानसि सिंह हेड, कन्ट्रकट रिसेशन बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैराम सेंटर, सेक्टर मिडस के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल... subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं